

परमाणु शस्त्रागार पर SIPRI की रिपोर्ट

प्रलिम्स:

[SIPRI रिपोर्ट](#), [परमाणु अप्रसार संधि \(NPT\)](#), [व्यापक परमाणु परीक्षण परतबंधि संधि \(CTBT\)](#), [परमाणु शस्त्रों के नषिध पर संधि \(TPNW\)](#), [परमाणु आपूरतकिरतता समूह \(NSG\)](#), [मसिाइल परौदयोगिकी नयितरण वयवस्था \(MTCR\)](#), [बैलसिटिकी मसिाइल परसार के वरिद्ध हेग कोड ऑफ कंडक्ट](#), [वासेनार अरेंजमेंट](#), [नो-फरसट-यूज पॉलिसी](#)

मेन्स:

[नो-फरसट-यूज पॉलिसी](#), [परमाणु शस्त्रागार](#), [परमाणु कूटनीति](#), [नरिसत्रीकरण](#)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसरच इंस्टीट्यूट \(SIPRI\)](#) की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें [वर्ष भर में परमाणु शस्त्रागार](#) के चल रहे आधुनिकीकरण और वसितार से संबंधित [बढ़ते जोखमि तथा असुथरिता पर प्रकाश](#) डाला गया।

रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

- **वैश्विक परमाणु शस्त्र:**
 - सभी नौ परमाणु-सशस्त्र देश (अमेरिका, रूस, ब्रिटन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकस्तान, उत्तर कोरिया और इजरायल) अपने [परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण](#) जारी रखे हुए हैं।
 - **जनवरी, 2024** तक परमाणु शस्त्रों की वैश्विक सूची में लगभग **12,121 शस्त्र** शामिल थे, जिसमें से लगभग 9,585 सैन्य भंडारण में थे।
 - लगभग 2,100 शस्त्रों को मुख्य रूप से रूस और अमेरिका द्वारा उच्च परचालन अलर्ट पर रखा गया था, हालाँकि [इसमें चीन के पास कुछ अधिक शस्त्र होने की संभावना है](#)।
- **देश-वशिष्ट विकास:**
 - **रूस और अमेरिका:** दोनों के पास कुल परमाणु शस्त्रों का **लगभग 90% हिस्सा** है।
 - **चीन:** चीन ने जनवरी, 2024 तक अपने परमाणु शस्त्रागार को 410 से बढ़ाकर 500 कर दिया है और [वहकिसी भी अन्य देश की तुलना में अपने परमाणु शस्त्रागार का तीव्र वसितार](#) कर रहा है।
 - **उत्तर कोरिया** के पास लगभग 50 वारहेड, जबकि उसकी सामग्री को मिलाकर यह संख्या 90 तक है।
 - **इजरायल** अपने [शस्त्रागार का आधुनिकीकरण](#) कर रहा है साथ ही [प्लूटोनियम उत्पादन क्षमताओं](#) को भी बढ़ा रहा है (हालाँकि आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार्य नहीं है)।
 - **भारत और पाकस्तान:**
 - जनवरी, 2024 तक भारत के पास 172 [परमाणु शस्त्रागार](#) हैं, जो विश्व स्तर पर पाकस्तान (170) से अधिक छठे स्थान पर है, वह चीन पर नशाना साधने वाले लंबी दूरी के शस्त्रों पर जोर दे रहा है।
- **परमाणु कूटनीतिकी चुनौतियाँ:**
 - परमाणु शस्त्रागार नयितरण और [नरिसत्रीकरण](#) कूटनीतिकी, विशेष रूप से [यूक्रेन](#) तथा [गाजा](#) में युद्ध के कारण, असफलताओं का सामना करना पड़ा।
 - ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता गया तथा इजरायल-हमास युद्ध ने कूटनीतिकी प्रयासों को और अधिक जटिल बना दिया।
 - महत्त्वपूर्ण असफलताओं में [नई START संधि](#) से रूस का नलिनबन के साथ-साथ [व्यापक परमाणु-परीक्षण-परतबंधि संधि \(CTBT\)](#) अनुसमर्थन से हटना भी शामिल है।
- **वैश्विक सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:**
 - इसमें सैन्य व्यय, हथियारों के हस्तांतरण और संघर्षों में नज्दी सैन्य कंपनियों की भूमिका जैसे मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया।
 - इसमें [कूटनीतिकी बुद्धिमत्ता](#), [बाह्य अंतरिक्ष](#), [साइबरस्पेस](#) एवं युद्ध कषेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित जोखमिों पर भी प्रकाश डाला गया।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI)

- यह एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नयित्रण तथा नरिस्तरीकरण पर अनुसंधान के लिये समर्पित है।
- SIPRI एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी।
- यह नीतिनिर्माताओं, शोधकर्त्ताओं, मीडिया एवं इच्छुक लोगों को आँकड़ों का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराती है।

भारत के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित चुनौतियाँ तथा आगे की राह क्या हैं?

- चुनौतियाँ:
 - सीमा पर तनाव एवं आतंकवादी मुद्दों के कारण भारत को मुख्य रूप से पाकस्तान तथा चीन से परमाणु खतरे का सामना करना पड़ रहा है।
 - साइबर हमलों के बढ़ते खतरों के कारण परमाणु प्रणालियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी शक्तिता के परिणामस्वरूप भारत के [कूटनीतिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र](#) पर वर्ष 2019 में हुए कथित साइबर हमले जैसे परिणाम हो सकते हैं।
 - हाइपरसोनिक मिसाइलों, स्वायत्त हथियारों तथा AI की तीव्र प्रगति द्वारा परमाणु निवारण रणनीतियों के लिये नई चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं।
 - भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को रेडियोधर्मी संदूषण, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

आगे की राह

- [वैश्वसनीय न्यूनतम निवारण](#) को बनाए रखते हुए, भारत को उन्नत वितरण प्रणाली विकसित करके अपने परमाणु शस्त्रागार का ज़िम्मेदारी से आधुनिकीकरण करना चाहिये और साथ ही [थोरियम-आधारित रिकटर्स](#) जैसी उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों में निवेश करना चाहिये।
- भारत को परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन तथा [परमाणु आतंकवाद से निपटने के लिये वैश्विक पहल \(GICNT\)](#) जैसी वैश्विक परमाणु शासन पहलों में शामिल होना चाहिये और [वैश्विक निवारण उपायों के माध्यम से](#) पाकस्तान तथा चीन के साथ परमाणु जोखिमों को कम करने पर कार्य करना चाहिये।

परमाणु कार्यक्रमों के लिये अंतरराष्ट्रीय संधियाँ

- परमाणु प्रसार एवं परीक्षण रोकने वाली संधियाँ:
 - परमाणु हथियारों के [अप्रसार पर संधि \(NPT\)](#)।
 - [आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि \(PTBT\)](#): वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष तथा पानी के नीचे परमाणु हथियार परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना।
 - [व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि \(CTBT\)](#) पर वर्ष 1996 में हस्ताक्षर किये गए थे, लेकिन यह अभी तक लागू नहीं हुई है।
 - परमाणु हथियारों के नषिध पर संधि (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons-TPNW): यह 22 जनवरी, 2021 को लागू हुई।
- अन्य संबंधित पहल:
 - [परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह](#)
 - [मिसाइल प्रौद्योगिकी नयित्रण व्यवस्था](#)
 - बैलस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ हेग आचार संहिता
 - वासेनर व्यवस्था

भारत का परमाणु कार्यक्रम

- भारत ने **मई 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण** किया था तथा वह परमाणु अप्रसार संधि (NPT) और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) दोनों से बाहर है।
- हालाँकि [भारत ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी \(IAEA\)](#) के साथ सुविधा-वशिष्ट सुरक्षा समझौता किया है और [परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह \(NSG\)](#) से छूट प्राप्त की है, जो उसे वैश्विक असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी वाणज्य में भाग लेने की अनुमति देती है।
- इसे वर्ष 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नयित्रण व्यवस्था (MTCR), वर्ष 2017 में [वासेनर अरेंजमेंट](#) तथा वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया समूह का सदस्य बनाया गया।
- वर्ष 2024 में, भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में [भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिकटर \(PFBR\)](#) की कोर लोडिंग शुरू की, जो भारत के परमाणु कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा।
- भारत परमाणु हथियारों का [नो-फरस्ट-यूज पॉलिसी](#) की अपनी आधिकारिक प्रतिबद्धता पर कायम है।

प्रश्न. भारत के परमाणु शास्त्रागार की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कीजिये और क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा गतिशीलता के संदर्भ में इसके सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर "आई. ए. ई. ए. सुरक्षा उपायों" के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? (2020)

- (a) कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का
- (b) कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का
- (c) कुछ वदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा
- (d) कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य नज्जी स्वामित्व वाले

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों के परिपेक्ष्य में भारत को अपने नाभकीय ऊर्जा कार्यक्रम का वसितार करना जारी रखना चाहिये? नाभकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों और भयों की वविचना कीजिये। (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/sipri-report-on-nuclear-arsenal>

